

	भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग प्रधान आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर झोन पो.बॉ.सं. 81, तेलंगखेड़ी रोड, टि.वि.एल लाइन्स, नागपुर- 440001	
---	--	---

व्यापार सूचना क्र. 06/2018/NGP-II

दिनांक 14.09.2018

विषय: Recovery of arrears of wrongly availed CENVAT credit under the existing law and inadmissible transitional credit - reg.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आयुक्त (GST), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के परिपत्र क्र. 58/33/2018/GST जो फाइल क्र.20/16/4/2018-GST, दिनांक 04.09.2018 के अंतर्गत जारी किया गया है, की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं कार्यवाही के लिए प्राप्त करें।

सभी सम्बंधित संगठनों/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे परिपत्र की जानकारी अपने सभी सदस्य निर्माताओं एवं व्यापारियों को दें।

संलग्न: यथोक्त

(आशीष चन्दन)
आयुक्त

F. No. IV(16)30-01/2017/Tech/NGP-II/Pt. II - 907 नागपुर, 14.09.2018

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त आयुक्त (मुख्य आयुक्त), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर।
2. आयुक्त (अपील), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर।
3. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर-II, प्रभाग-सिटी/कल्मेश्वर/अमरावती/अकोला।
4. सहायक आयुक्त विधि/समीक्षा एवं अधिवक्ता/न्यायनिर्णयन/निवारक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर-II
5. सहायक आयुक्त (संगणक), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर। यह अनुरोध है कि वे इस आदेश को कार्यालीन वेब साइट पर अपलोड करें।
6. सभी व्यापार संगठन।
7. सभी वाणिज्य संगठन।
8. क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सभी सदस्य (1) संगठित क्षेत्र (2) लघु उद्योग क्षेत्र
9. लोक शिकायत निवारण समिति के सभी सदस्य।

377
27/9/2018
(Sps) NGP-II

सहायक आयुक्त (संवलीकी)
नागपुर-II

CBEC-20/16/4/2018-GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing

New Delhi, Dated the 4th September, 2018

To,

The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/Principal Commissioners/
Commissioners of Central Tax (All)
The Principal Directors General/ Directors General (All)

Subject: Recovery of arrears of wrongly availed CENVAT credit under the existing law and inadmissible transitional credit - regarding

Various representations have been received seeking clarification on the process of recovery of arrears of wrongly availed CENVAT credit under the existing law and CENVAT credit wrongly carried forward as transitional credit in the GST regime. In order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across the field formations, the Board, in exercise of its powers conferred under section 168 (1) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the 'CGST Act'), hereby specifies the process of recovery of the said arrears and inadmissible transitional credit in the succeeding paragraphs.

2. The Board vide Circular No. 42/16/2018-GST dated 13th April, 2018, has clarified that the recovery of arrears arising under the existing law shall be made as central tax liability to be paid through the utilization of the amount available in the electronic credit ledger or electronic cash ledger of the registered person, and the same shall be recorded in Part II of the Electronic Liability Register (**FORM GST PMT-01**).

3. Currently, the functionality to record this liability in the electronic liability register is not available on the common portal. Therefore, it is clarified that as an alternative method, taxpayers may reverse the wrongly availed CENVAT credit under the existing law and

Circular No. 58/32/2018-GST

inadmissible transitional credit through Table 4(B)(2) of **FORM GSTR-3B**. The applicable interest and penalty shall apply on all such reversals which shall be paid through entry in column 9 of Table 6.1 of **FORM GSTR-3B**.

4. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular.

5. Difficulty, if any, in implementation of this Circular may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

(Upender Gupta)
Commissioner (GST)